

डेयन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) (सी आई एन : U65910DL1986GOI026363)

पंजीकृत कार्यालय : यू.जी. फ्लोर, ईस्ट टॉवर, एन.बी.सी.सी. प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

दूरभाष: 24369766-69, फैक्स: 24369770

INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise) (CIN: U65910DL1986GOI026363)

Regd. Office: UG-Floor, East Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi-110 003 Phone: 24369766 - 69, Fax: 24369770, E-mail: info@irfc.nic.in, Website: www.irfc.nic.in

No: IRFC/SE/2020-21/21

6th March, 2021

National Stock Exchange of India Limited

Listing department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400 051

BSE Limited

Listing Dept / Dept of Corporate Services, PJ Towers, Dalal Street.

Mumbai -400 001

Scrip Symbol: IRFC

Scrip Code: 543257

Sub: Intimation on Publication of newspaper advertisement

Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed Newspaper Clipping of the advertisement published on 6th March, 2021 in English and regional (Hindi) newspaper(s).

This is submitted for your information and record.

Thanking You,

For Indian Railway Finance Corporation Limited

(Vijay Babulal Shirode)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

FINANCIAL EXPRESS

NDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Enterprise) UG Floor, East Tower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi-110 003

Phone: 24369766-69 Fax: 24369770 Website: www.irfc.nic.in.

CIN - U65910DL1986GOI026363

For Indian Railway Finance Corporation Limited

Vijay Babulal Shirode

Company secretary

NOTICE Notice is hereby given to all Shareholders, Debentureholders, Customers Business associates, Banks, Financial Institutions, Arrangers, Registrar and

Transfer Agents, Trustees, National Stock Exchange, Bombay Stock

Exchange, all stakeholders, all persons concerned and members of the public that the Board of Directors of the Company at their meeting held on

4" March, 2021 have passed the resolution for shifting of the registered office

of the Company from the premises at UG Floor, East Tower, NBCC Place,

Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi 110003 to the new premises at Room Nos. 1316 - 1349, 3" Floor, Hotel The Ashok,

Diplomatic Enclave, 50-B, Chanakyapuri, New Delhi - 110021 within the

Regd.Office: Engineers India House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066 Phone: 011-26762121, Fax: 011- 26178210, e-mail: company.secretary@eil.co.in

Website: http://www.engineersindia.com, CIN: L74899DL1965GOI004352

NOTICE is hereby given, pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the next meeting of the Board of

Directors of the Company will be held on Thursday, the 11th March, 2021 at 3:00 p.m. at the

Registered Office of the Company at E.I. House, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, inter-alia, to consider and approve Interim Dividend, if any, for the financial year 2020-21.

Further, pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Section 91 of the

Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, it is hereby informed that EIL has fixed

local limits of City with effect from 8" March, 2021

Oil touches \$69 a barrel after OPEC+ extends output cuts

NOAH BROWNING London, March 5

OIL PRICES JUMPED more than 3% on Friday, hitting their highest levels in over a year after the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and its allies agreed not to increase supply in April as they await a more substantial recovery in demand.

Brent crude futures were up \$2.23, or 3.3%, at \$68.97 a barrel by 1441 GMT — a nearly 14-month high. US West Texas Intermediate (WTI) crude futures climbed \$2, or 3.1%, to \$65.83 — the highest since April 2019.

Both contracts surged more

 $than\,4\%\,on\,Thursday\,after\,the$ OPEC and allies, together known as OPEC+, extended oil output curbs into April, granting small exemptions to Russia and Kazakhstan.

"OPEC+ settled for a cautious approach ... opting to increase production by just 150,000 barrels per day (bpd) in April while market participants looked for an increase of 1.5 million bpd," said UBS oil analyst Giovanni Staunovo. Investors were surprised

that Saudi Arabia had decided to maintain its voluntary cut of 1 million bpd through April even after the oil price rally of the past two months on the back of Covid-19 vaccination programmes around the globe.



Some forecasters revised their price expectations upward following the decision.

Goldman Sachs raised its Brent crude price forecast by guarter and \$80 a barrel in the third quarter of this year. UBS raised its Brent forecast to \$75 a barrel and WTI to \$72 in the second half of 2021. However, analysts and

\$5 to \$75 a barrel in the second

traders have warned that slow physical crude sales and recovery for demand not predicted until around the third quarter suggest that the price rally is unwarranted.

"The market suggests a tightness that does not exist. Therefore, we continue to believe that the price risk is mainly downward and that the current price is overshooting," Hans van Cleef, senior energy economist at ABN Amro said. **—REUTERS**

Gold reserves increased by

\$172 million to \$35.421 bil-

lion during the reporting

week, the apex bank data

note the following:

Place : Mumbai

Date: March 05, 2021

No. 003/03/2021

showed.

Easy Trip Planners garners ₹229 crore from anchor investors

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 5

ONLINE TRAVEL COMPANY Easy Trip Planners on Friday raised a little over ₹229 crore from anchor investors, ahead of its initial share sale, which will open for public subscrip-

tion on Monday.

A total of 1,22,72,727 shares have been allocated to 35 anchor investors at ₹187 per share, which is the upper end of the price band. At this price, the company mopped up ₹229.5 crore, according to a circular uploaded on the BSE website.

EaseMyTrip.com is operated by Easy Trip Planners.

The company's initial public offering is entirely an offer for sale. Through the IPO, the company's founders Nishant Pitti and Rikant Pitti will each sell shares to the tune of ₹255 crore through an offer-for-sale mechanism.

Nishant and Rikant hold 49.81% and 49.68% stake,

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information

Further to Addendum No. 012/01/2021 pertaining to introduction of participation in

Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCDs) in the Scheme, investors may please

With effect from closure of business hours on March 08, 2021, the Scheme shall not

FPIs shall mean entities who are registered under the Securities and Exchange Board of

Accordingly, the section 'Who can invest' and other relevant sections in the Offer

Documents of the Scheme stand modified. The AMC reserves the right to put the

transaction requests received from the FPI(s) on hold/reject the transaction request/

reverse allotted units, as the case may be, as and when identified by the AMC, which

are not in compliance with the terms and conditions notified in this regard. Investors

are further requested to note that the AMC shall not be liable for any direct or indirect

losses or expenses in respect of those transaction requests/allotted units which have

All the other provisions of the SID/KIM/addenda of the Scheme except as specifically

This notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM/addenda of the

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com

or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully.

Memorandum (KIM) of ICICI Prudential Gold ETF (the Scheme)

accept investments from Foreign Portfolio Investors (FPIs).

India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019.

been kept on hold or rejected or reversed.

Scheme, as amended from time to time.

mentioned herein above remain unchanged.

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135



Shares have been allocated to 35 anchor investors at ₹187 per share, which is the upper end of the price band

respectively, in the company. The company has fixed a price band of ₹186-187 per share for its ₹510-crore

The object of the public issue is to achieve the benefits of listing the equity shares on stock exchanges.

Friday, March 19, 2021 as the "Record Date" for the purpose of ascertaining the eligibility of shareholders for payment of interim dividend on equity paid-up share capital of the Company for the financial year 2020-21, if any, declared at the aforesaid Board Meeting. IPO, which will conclude on The said Interim Dividend will be paid to those shareholders whose names appear. March 10. a) as beneficial owners in the statement(s) furnished by the Depository(ies) as on the close of business hours on Friday, March 19, 2021 in respect of shares held in

Place: New Delhi

Date: 05.03.2021

as members in the Register of Members on Friday, March 19, 2021 in respect of

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of

Shareholders w.e.f. 01.04.2020. Accordingly, the Company will be required to deduct Tax at source (TDS) at the time of making payment of dividend, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. To enable compliance with TDS requirements, shareholders are requested to submit Form 15G/15H and update their residential Status, PAN and Category etc. as per the Income Tax Act, 1961 with their Depository Participant(s) for shares in demat mode or with the Company/R&TA for shares in physical mode at M/s Alankit Assignments Limted, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extn., New Delhi- 110055 or e-mail to virenders@alankit.com on or before 17.03.2021. For further details, shareholders are requested to visit our website www.engineersindia.com under

This intimation is also available on the website of the Company at www.engineersindia.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

for ENGINEERS INDIA LIMITED S. K. Padhi Place: New Delhi Date: 05.03.2021

Company Secretary

SDC TECHMEDIA LIMITED

(Formerly known as Onesource Techmedia Limited) CIN: L72900TN2008PLC067982

Reg. Office: 33/1, Wallajah Road, Chepauk Chennai-600002 Email: info@sdctech.in, Website: www.sdctech.in, Phone No: 044-2854 5858 NOTICE

compliance with Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (the "Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (the "Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time bein in force, read along with the General Circular number 39/2020, 17/2020, 14/2020 & all other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Boan of India (SEBI), the company on March 05, 2020 had completed the dispatch of Postal Ballo Notice along with Explanatory Statement via Email to all its shareholders whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners from NSDL/CDSL as on February 26, 2021 All the Shareholders of the company hold shares in dematerialized mode and hence they are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Furthermore the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement is also made available on the Company's website at www.sdctech.in, stock exchange website at www.bseindia.com and CDSL website at www.evotingindia.com In terms with the provisions of the General Circular number 39/2020, 14/2020, 17/2020 & all

with and all the items being considered through Postal Ballot are to be considered only through e-voting mechanism till June 30, 2021 In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Managemen &Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its members holding

other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities

and Exchange Board of India (SEBI), the Physical dispatch of Postal Ballot Notice is dispensed

shares, as on the cut off date with facility of remote e-voting In terms of Section 110 of the Act and the Rules, the Board of Directors has fixed February 26 2021 as the cut-off date to record the entitlement of the shareholders to cast their vote Electronically

for the resolution to be passed through Postal Ballot The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL" as the Authorized Agency to provide e-voting facilities. The e-voting period commences on Friday March 05, 2021 (09:00 A.M.) and ends on Sunday, April 03, 2021 (05:00 P.M.). During this period, shareholders holding shares as on February 26, 2021 may cast their vote electronically. Any

votes after the specified date and time will be treated as invalid and voting by electronic means will not be allowed beyond the said date. For other details, members are requested to go through the important notes of the notice thoroughly. The Scrutinizer will submit their report to the Managing Director of the Company after the completion of the scrutiny of the voting process. The Managing Director of the Company will

announce the results of the Postal Ballot, at the Board Meeting scheduled to be held at 04.00 P.M. on April 05, 2021 at the Registered Office of the Company.

For any queries related to e-voting/postal ballot, members can contact the RTA of the Company, M/s. Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd., 9 Shiv Shakti Ind. Estt., J R Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai 400 011. Email: support@purvashare.com, Phone: +91-022-2301 8261 Fax: +91-022-2301 2517or the undersigned from Monday to Friday between 10:00 A.M to 5:00 P.M.

Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

Relevant Particulars

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

RELIANCE TECH SERVICES LIMITED

Place: Chennai Date: March 05, 2021

Name of the corporate debtor

Fayaz Usman Faheed (Din: 00252610) Managing Director

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency

Date of Incorporation of Corporate Debtor Authority under which Corporate Debtor is Registrar of Companies - Mumbai incorporated / registered U72900MH2007PLC172690 Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor Insolvency commencement date in respect of 04.08.2020 Corporate Debtor Date of invitation of expression of interest 06.03.2021

Knowledge City Navi Mumbai MH 400710 IN 8. Eligibility for resolution applicants under http://www.insolvencyandbankruptcy.in section 25(2)(h) of the Code is available at: 9. Norms of ineligibility applicable under http://www.insolvencyandbankruptcy.in section 29A are available at: 10. Last date for receipt of expression of interest 23.03.2021 11 Date of issue of provisional list of 24.03.2021 prospective resolution applicants 12 Last date for submission of objections to 26.03.2021 provisional list 13 Date of issue of final list of prospective resolution applicants 14. Date of issue of information memorandum, 26.03.2021 evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants The Resolution professional will share the reques Manner of obtaining request for resolution for resolution plan/evaluation Matrix/ Information plan, evaluation matrix, information Memorandum in the electronic form after verification memorandum("IM") and further of KYC, capacity to invest, capability to manage and eligibility under section 29A of IBC, 2016 and prequalification criteria, if any approved by COC. 16 Last date for submission of resolution plans 12.04.2021 To be decided by committee of creditors 17 Manner of submitting resolution plans to resolution professional

18 Estimated date for submission of To be decided

resolution plan to the Adjudicating Authority for approval Name: Anjan Bhattacharya Name and registration number of the IP Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00926/2017-18/11533 resolution professional

20 Name, Address and e-email of the Address: 301, A Wing, B S E L Tech Park, Sector 30 A, Opposite Vash resolution professional, as registered Railway Station, Vashi, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra -400705 with the Board

anjan.bhattacharya@aaainsolvency.com 21. Address and email to be used for corres 301, A Wing, B S E L Tech Park, Sector 30 A, Opposite Vashi pondence with the resolution professional Railway Station, Vashi, Thane , Navi Mumbai, Maharashtra -40070 reliancetech@aaainsolvency.com

22. Further Details are available at or with htttp://www.insolvencyandbankruptcy.in 23. Date of publication of Form G 06.03.2021 Anjan Bhattacharya **Resolution Professiona**

Date-06.03.2021 Place- Mumbai

IP Registration no. IBBI/IPA-001/IP-P00926/2017-18/11533 301, A Wing, B S E L Tech Park, Sector 30 A Opposite Vashi Railway Station, Vashi, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra, 400705 For Reliance Tech Services Limited

Indian Bank

FE BUREAU

ASREC stake

to divest

Chennai, March 5 **THE BOARD OF** directors of Chennai-based public sector

accorded in-principle approval for the partial or full disinvestment of the bank's stake in ASREC (India) Ltd. The bank holds a 38.26% stake in ASREC (India) and the

lender Indian Bank on Friday

decision to divest stake is part of monetisation of the bank's non-core assets. Apart from Indian Bank,

LIC of India, Bank of India, Union Bank of India and Deutsche Bank are the other shareholders in the company.

ASREC positions itself as a multi-lender ARC in the public sector, aiming to earn confidence of the financial system in effective resolution of NPAs

ASREC (India), a public lim ited company incorporated under the Companies Act 1956 has been granted certificate of registration by the Reserve Bank of India on October 11 2004 to carry out activities under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

The company acquires nonperforming assets (NPAs) from banks and financial institu tions at mutually agreed prices with the objective is to max imise the returns through resolutions innovative strategies.

ASREC positions itself as the multi-lender ARC in the public sector, aiming to earn the confidence of the financial system in the effective resolution of NPAs by operating in transparent manner with flexibility of the private sector.

Date: 05/03/2021

Forex reserves rise by \$689 mn to \$584 bn

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, March 5

FOREX RESERVES INCREASED for the second consecutive week, touching \$584.554 billion as of Febru-

ary 26, up by \$689 million, the

Reserve Bank said on Friday. The overall reserves had increased by \$169 million to \$583.865 billion in the previous reporting week. The reserves, which have been steadily increasing over the last few months, had touched an

all-time high at \$590.185 billion for the week ended Janu-

ary 29 this year.

For the week ended February 26, the core currency assets - the largest component of the overall reserves — rose by \$509 million to \$542.615 billion, the RBI said.

Expressed in dollar terms, include the effect of appreciaexchange reserves.

ICICI PRUDENTIAL TO MUTUAL FUND the foreign currency assets

tion or depreciation of non-US units like the euro, pound and yen held in the foreign

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA Mahendergarh - 123031 (Haryana) Dated: 05.03.2021

No: CUH/Physics/01/2021 **TENDER NOTICE**

Central University of Haryana (CUH) invites techno-financial proposals, for the item(s mentioned in tender document, from reputed firms having expertise and experience in the relevant field. The interested parties /firms/OEM desirous of supplying, installing and ntegrating the system(s) as given in tender documents, may send their sealed offer to the undersigned by 29.03.2021 upto 2:00 PM. For more information and updates please visit www.cuh.ac.in Registrar

SCHEDULE II FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

		LUTIONS LIMITED- IN LIQUIDATION		
Sr.N	No Particulars Name of Corporate Debtor	Details SIXTH DIMENSION PROJECT SOLUTIONS LIMITE		
2	Date of Incorporation of Corporate Debtor Authority Under Which Corporate	13/10/1998 ROC-MUMBAI		
4	Corporate Identity Number / Limited Liability Identity Number Of Corporate Debtor	100 Control of Control		
5	Address Of The Registered Office And Principal Office (If Any) Of Corporate Debtor	Bhuvan Chs Ltd, Veer Savarkar Road, Nea Teen Petrol Pump, Thane Mh 400601		
6	Date of Closure of Insolvency Resolution Process	01/03/2021		
7	Liquidation Commencement Date of Corporate Debtor	Order Delivered On: 01/03/2021 Order Uploaded On Website: 03/03/2021		
8	Name And Registration Number of The Insolvency Professional Acting As Liquidator	Mr. Santanu T Ray Registration No: IBBI/IPA-N00360/2017- 2018/11055)		
9	Address And E-Mail Of The Liquidator, As Registered With The Board	AAA Insolvency Professionals LLP, A- 301, Bsel Tech Park, Sector 30A, Opp. Vashi Railway Station-400 705 email: santanutray@aaainsolvency.com		
10	Address And E-Mail To Be Used For Correspondence With The Liquidator	AAA Insolvency Professionals LLP, A-301, Bsel Tech Park, Sector 30a, Opp. Vashi Railway Station- 400 705 email: : sixthdimension@aaainsolvency.com		

11 Last Date For Submission of Claims 02/04/2021 Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ha ordered the commencement of liquidation of SIXTH DIMENSION PROJECT SOLUTIONS LIMITED on 01/03/2021.(order uploaded on the website of the NCLT on 03/03/2021) The stakeholders of Sixth Dimension Project Solutions Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 02/04/2021, to the liquidator at the address

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other creditors may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties

Mr. Santanu T. Ray Date: 05/03/2021 Insolvency Professional, AAA Insolvency Professionals LLP

Place: Mumbai

Read No: IBBI/IPA-N00360/2017- 2018/11055



LIC Mutual Fund Asset Management Limited

(Investment Managers to LIC Mutual Fund) CIN No: U67190MH1994PLC077858

Registered Office: Industrial Assurance Bldg. 4th Floor, Opp. Churchgate Station, Mumbai - 400 020 Tel. No.: 022-66016000, Toll Free No.: 1800 258 5678, Fax No.: 022-22835606 Email: service@licmf.com • Website: www.licmf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM No. 43 of 2020-2021

Appointment of Independent Director on the Board of LIC Mutual Fund Trustee Private Limited ("Trustees") NOTICE is hereby given to all the Investors/Unit holders that Mr. Amit Pandit (DIN: 02437092) has been appointed as an Independent Director on the Board of Trustees for a first term of 5 years w.e.f. 4th March 2021. The details are as under:

Name	Age (in yrs)	Qualification	Brief Experience
Mr. Amit Pandit	50	B. Com, FCA, DBF	 Promoter Director – Trugrow Finvest Services Pvt. Ltd (December 2020 – till date) Director – Global Chamber of Saraswat Entrepreneurs (September 2019 – till date) Proprietor – Amit Pandit – Consultant (April 2018 – tildate) Independent Director – Saraswat Co-op Bank Ltd (August 2007 – September 2020) Partner – SGCO & CO LLP, Chartered Accountants (September 2015 – April 2018) Partner – CNK & Associates LLP, Chartered Accountants (October 2004 – August 2015) Director – Saraswat Infotech Pvt. Ltd. (August 2008 – October 2016) Director – Omkar Speciality Chemicals Ltd (March 2010 – March 2015) Visiting faculty – NMIMS, IBS, IES, Vidyalankar Chetana Business Schools (October 2007 – till date)

All other contents of the SAI will remain unchanged. For LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED

Authorized Signatory Place: Mumbai As part of Go-Green initiative, investors are encouraged to register/update their email ID

and Mobile Number with us to support paper-less communication. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

financialexp.epap.in

Place: Chennai

Date : 5th March 2021

HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

CIN: L15499TN1986PLC012747

Regd. Office: Domaine, Door No.1/20A, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai - 600 097. Tel: 091-044-24501622 | Fax: 091-044-24501422 | Email: secretarial@hap.in Website: www.hap.in

RESULT OF POSTAL BALLOT

It is hereby notified to the Shareholders of the Company and all other concerned entities / authorities that the Company conducted the process of Postal Ballot pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, for passing of resolutions as set out in the notice of postal ballot dated 19th January 2021.

The last date of receipt of postal ballot forms either through physical submission by shareholders of the Company in the self addressed postage pre-paid business reply envelope or through e-voting was upto the close of working hours.

The Company had appointed Shri. N Ramanathan, Partner of M/s. S. Dhanapal & Associates, Practising Company Secretaries as scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner.

Shri. N Ramanathan has submitted his report dated 4th March, 2021 to the Chairman / Person authorised by the Chairman of the Company, In accordance with the Postal Ballot Notice, the results were declared on 4th March, 2021 at the Registered Office of the Company at Domaine, Door No.1/20A, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai 600 097

The summarized result of the Postal Ballot is as follows:

SPECIAL RESOLUTION NO.1	NO	ES VOTED		
Payment of remuneration to Shri. R G Chandramogan,	PARTICULARS	E-VOTING (ELECTRONIC)	PHYSICAL BALLOT FORMS	TOTAL
Chairman and Non-Executive Non-Independent Director	Net valid votes cast	185494878	8654	185503532
Non-Independent Director	Votes cast in favour	185491480	8654	185500134
	Votes Cast against	3398	0	3398
SPECIAL RESOLUTION NO.2	NO. OF EQUITY SHARES VOTED			
Payment of remuneration to Shri. D. Sathyanarayan, Non-	PARTICULARS	E-VOTING (ELECTRONIC)	PHYSICAL BALLOT FORMS	TOTAL
Executive Non- Independent	Net valid votes cast	185494880	8654	185503534
Director	Votes cast in favour	185491494	8654	185500148
	Votes Cast against	3386	0	3386

Accordingly, the above mentioned special resolutions has been passed by the shareholders with requisite majority. for HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED

G Somasundaram

Company Secretary

New Delhi







आवेदव

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली–110001

श्री शाहनवाज़ हुसैन सिद्दीकी

श्री शाहनवाज़ हुसैन सिद्दीकी पुत्र श्री

शराफत हुसैन सिद्दीकी, निवासीः

—12/74ए, न्यू कॉलोनी, बिलाल मस्जिद

के पास, हौज रानी, मालवीय नगर, दक्षिणी

मैसर्स जेएसएस बिल्डकॉन प्रा. लि

जिसका पंजीकृत कार्यालय 1 / 10243, गली

नं. 1, गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली -

110032, <u>औरः</u> कॉर्पोरेट ऑफिसः एच-38

सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307

और: एनसीआर मोनार्क जीएच-02 / सी

सेक्टर—1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्ध

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध

रुपये 47,91,823.86 (रु. सैतालीस लाख

इक्यान्वे हजार आठ सौ तेईस और पैसे

छियासी मात्र) की वसूली हेतु एक वाद

स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण

को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुक

है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया

जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप

में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक

09-04-2021 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय

रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश

दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए

कृपया डीआरटी की वेबसाइट

ओ. ए नं. 445 / 2020

एवं अन्य

पंजाब नैशनल बैंक

दिल्ली, नई दिल्ली— 110017

नगर, उत्तर प्रदेश-201306

कब्जा सूचना

जबकि, अद्योहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्त अधिनियम 2002, (2002 का संख्याक 54) की धारा (13(12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्न) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांकों को विवरण निम्न वर्णित है। सम्बन्धित ऋणियाँ तथा सम्पत्ति के मानिकों से मुगतान की मांग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 80 दिनों मे मुगतान करने के लिये निममित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के मुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की घारा 13(4) तथा संपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नतिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न क

	तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गर्या कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।						
क्रं0 सं0	का नाम		बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	साकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान		
1.	लखीमपुर शाखा	प्रोपराइटरः— अन्नपूर्णा राठौर (प्रोपराइटर), श्री हरिनाम	आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम राजापुर परगना खीरी तहसील— लखीमपुर जिला—खीरी, संपत्ति हरिनाम जायसवाल पुत्र श्री श्याम लाल जायसवाल के नाम, सीमायें:— उत्तरः हरिनाम जायसवाल का खेत, दक्षिणः	₹ 12.42.317.00	03.03.2021 लखीमपुर		
15		गारटर), और श्री इकबाल अली	सानाय:- उत्तर इत्तान जायसमल का खत, यहण. चक मार्ग 3 मी., पूर्व: लुहारी नगर की सीमा, पश्चिम: खड़ंजा 4 मी.	म ब्याज व अन्य खर्चे 23.01.2019 से प्राधिकृत अधि			

<u>शास्त्र पत्र</u>
संपत्ति के लिए ई-नीलामी सूचना भूमि और
भवन, प्रॉपर्टी / आनुपातिक भूमि पर स्थित ग्रुप
हाउसिंग आनुपातिक भूमि के लिए ब्लॉक नंबर ए में स्थित हैं, सेक्टर 1 में सेलिब्रिटी मीडोज,
सुशांत गोल्फ सिटी, सुल्तानपुर रोड,
लेखनऊ, क्षेत्रफलः 3095.496 वर्ग मीटर, दिनाक
23.02.2021 को इस इस पत्र में प्रकाशित मेसर्स
श्री क्लोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट
लिमिटेड की ई-नीलामी सूचना अब रद्द/
वापस कर ली गयी है।
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

सार्वजनिक उद्घोषणा तिथि 5.3.2021 का शुद्धिपत्र

शद्धिपत्र'') श्री प्रभात रंजन सिंह (परिसमापक), बलदे

न प्राईवेट लिमिटेड के मामले में, के द्वारा बलदेव मेटर

स्थानः चेन्नई को इस प्रकार पढ़ा जाए

प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के लिए जारी की जा रही है

तिथिः 04.03.2021

केनरा बैंक 📣 Canara Bank

क्षेत्रीय कार्यालय ।: विपिन खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ-226010

पंजाब नैशनल बेंक एनआईटी, फरीदाबाद—121002,

दिनांक 04.03.2021 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्जदार मैसर्स कॉनस्क्फ इंजीनियर्स की सम्पत्ति की ई-नीलामी 22.03.2021 को होनी है, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 26.03.2021 के स्थान पर 20.03.2021 पढ़ा जाऐ शेष नियम व शर्ते पहले के अनुसार

रहेंगी।

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

शा.का. : एल.सी.बी. सेक्टर

सोया लिमिटेड

दिनांक : 05.03.2021 स्थान : चण्डीगढ़

www.etribunal.gov.in देखें) फोन : 011-23748473 ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:—

(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण 'सिस्को वेबेक्स' (ii) ''रजिस्ट्रार / रिकवरी ऑफिसर—।/और

रिकवरी ऑफिसर—।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात "drt.gov.in"

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 011—23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत 02 फरवरी, 2021 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानुसार

कृते रजिस्ट्रार प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है। दार, एलडी. नई दिल्ली, फोनः 011-

23748473, ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली-110001 ओ. ए नं. 441/2020

पंजाब नैशनल बैंक आवेदव श्री कबीर शर्मा एवं अन्य प्रतिवादी सेवा में

1. श्री कबीर शर्मा पुत्र श्री ओकेंदर शर्मा निवासीः सी-8/72, गली नं. 8, दयालपुर करावल नगर, दिल्ली-110094, और: मैसर आसन टेक्नोलॉजी प्रा. लि., प्लॉट नं. जी–70, द्वितीय तल, सेक्टर–63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

 मैसर्स जेएसएस बिल्डकॉन प्रा. लि जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/10243, गली नं. 1, गोरखं पार्क, शाहदरा, दिल्ली -110032., <u>और:</u> कॉर्पोरेट ऑफिसः एच-38 सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 <u>औरः</u> एनसीआर मोनार्क, जीएच-02/सी, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201306

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये 55.00.995.00 (रु. पच्चपन लाख नौ सौ पिचान्वे मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **09-04-2021** को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें) फोन 011-23748473

न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस

और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:-(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स" एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) ''रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-।/और रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए 'मीटिंग आईडी'' और 'पासवर्ड'' DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत

पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" (iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन 011—23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर के तहत 02 फरवरी, 2021 को दिया गया।

कृते रजिस्ट्रा प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है। दार एलडी अमित डीआरटी-।, नई दिल्ली, फोनः 011-23748473. ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

प्राधिकृत अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग

ओ. ए नं. 442 / 2020 पंजाब नैशनल बैंक श्री ओमिंद्र कुमार एवं अन्यु

1. श्री ओमिंद्र कमार पत्र श्री राज पाल सिंह निवासीः डी—80, द्वितीय तल, सेक्टर—12 रामप्रस्थ, गाजियाबाद, यू.पी.—201102, <u>और</u> सी/ओ मैसर्स वॉयवन बिल्डटेक प्रा. लि. डी-161, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 <u>और:</u> मकान नं. 40, शरफुद्दीनपुर, जवली–1

लोनी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201102। मैसर्स जेएसएस बिल्डकॉन प्रा. लि जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/10243, गली नं. 1, गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली 110032., और: कॉर्पोरेट ऑफिसः एच-38, सेक्टर—63, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201307, और: एनसीआर मोनार्क, जीएच-02/सी सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्ध नगर यू.पी—201306

जंबिक उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये 57,53,748.00 (रु. सत्तावन लाख तिरेप्पन हजार सात सौ अडतालीस मात्र) की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथ जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना व माध्यम से आपको दिनांक 09-04-2021 के पर्वा. 10.30 बजे माननीय रजिस्टार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरर्ट की वेबसाइट www.etribunal.gov.ir देखें) फोन : 011-23748473

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इर न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे वाद की सनवाई तथा निर्णय आपव अनुपस्थिति में किया जाएगा। चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सर्भ

मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:-(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण ''सिस्को वेबेक्स' एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) ''रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-।/औ रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत

पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" (iii) किसी मी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोह के तहत 30 जनवरी, 2021 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार कृते रजिस्ट्रा प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर

सकते है। अमित के. दार, एलडी. डीआरटी-।, नई दिल्ली, फोनः 011 23748473, ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

ई-नीलामी ∕िबक्री



सूचना

जोनल सस्त्र सेंटर, गेट नं. 1, प्रथम तल, पीएनबी हाउस, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160017 दूरभाष नं. : 0172-5040788 तथा 796, ई-मेल : zs8340@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक (जो भी प्रयोज्य हो) कब्जा बैंक/प्रतिभृत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

प्रतिभूत लेनदारों के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण : ज्ञात नहीं प्रतिभत आस्तियों की बिक्री की अनसची खाते/कर्जदार का नाम सम्पत्ति(यों) के बंधक अचल सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा स्वामी(यों/बंधककर्ताओं के A) सरफाएशी अधिनियम, 2002 की आरक्षित मूल्य ई-नीलामी की कळ्जे की तथा गाखा का नाम स्वामी(यों) नाम धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की जमा धरोहर राष्ट्र तिथि एवं तिथि प्रकृति **बंधककर्ताओं** (ईएमडी) (b) माँग सूचना 13(2) के अनुसार राष्ट्रि के नाम संविदा वृद्धि राहि औद्योगिक भूमि तथा भवन माप 1 बीघा 4 बिस्वास खेवट/खतौनी सं. 256/29 भौतिक मैसर्स गरीब होटल्स प्रा.लि. (ii) मैसर्स मित्तल/अग्रवाल खसरा नं. 1741/2 (2-17), हदबस्त सं. 192, जमाबंधी 2009-10, विलेख सं र. 9.20.48.319.03 हेत -कब्जा 11.00 बजे

	गराब नवाज पालामर प्रा.ाल.	एव श्रा रामजा	373 दिनाक 28.02.2007 के माध्यम सं, डा. मारपन राड, ग्राम थाना, तहसाल	01.10.2020 स ब्याज + अन्य लागत -		₹. 12,40,000/-	पूवा. स 12:00
	(iii) मैसर्स जी.एन. पेत	दास	नालागढ़, जिला सोलन में स्थित, श्री हरीश मित्तल/अग्रवाल एवं श्री रामजी दास			12,40,000/	बजे अप.
	शा.का. : सेक्टर 22-बी,		के नाम पर। प्राथमिक तौर पर गरीब नवाज पॉलीमर प्रा.लि. के खाते में बंधक			रु. 1,00,000/−	1 I
	चण्डीगढ़		तथा अन्य खातों में विस्तार (जी.एन. पेत एवं गरीब नवाज होटल्स प्रा.लि.)			90 gc 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2	(i) मैसर्स गरीब नवाज	श्री हरीश	औद्योगिक भूमि तथा भवन माप 1 बीघा 5 बिस्वास खेवट/खतौनी सं.	13(2) 18.10.2017	भौतिक	रु. 57,00,000/−	26.03.2021
	होटल्स प्रा.लि. (ii) मैसर्स	अग्रवाल	2364/1709 (0-8), 2366/1710(0-17), हदबस्त सं. 192, पंजीकृत विक्रय	रु. 9,20,48,319.03 हेतु +	कब्जा		11:15 बजे
	गरीब नवाज पॉलीमर प्रा.लि.		विलेख सं. 950 दिनांक 22.12.2009 के माध्यम से, डॉ. मोरेपन रोड, ग्राम थाना,	01.10.2020 से ब्याज + अन्य लागतें -		रु. 5,70,000/−	पूर्वा. से 12.15
	(iii) मैसर्स जी.एन. पेत		तहसील नालागढ़, जिला सोलन में स्थित, श्री हरीश अग्रवाल के नाम पर।	वसूली, यदि कोई हो			बजे अप.
	शा.का. : सेक्टर 22-बी,		प्राथमिक तौर पर जी.एन. पेत के खाते में बंधक तथा अन्य खातों में विस्तार	**		रु. 50,000/−	
	चण्डीगढ़		(गरीब नवाज पॉलीमर प्रा.लि. एवं गरीब नवाज होटल्स प्रा.लि.)				
3	मैसर्स अलास्का फैबटेक	मैसर्स अलास्का	अचल सम्पत्ति फैक्ट्री भूमि एवं भवन माप कुल 29 बीघा एवं 7 बिस्वा का	(i) पंजाब नैशनल बैंक 13(2) 03.10.2019	सांकेतिक	₹.	26.03.2021
	प्रा.लि.	फैबटेक प्रा.लि.	इक्विटेबल बंधक खाता सं. 133/262, खसरा नं. 4//2(1 -4), 3(2-1),	रु. 1719.59 लाख हेतु +	कब्जा	21,04,57,000/-	11.30 बजे
	शा.का. : सेक्टर 17-बी,		4(1-13), $7(4-0)$, $8(4-0)$, $9(2-14)$, $10(0-1)$, $14(4-0)$,	01.10.2020 से ब्याज + अन्य लागतें -		₹.	पूर्वा. से
	चण्डीगढ़		17/2(0-10), कित्ता-9, ग्राम कुरानवाला, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली,	वसूली, यदि कोई हो (ii) बैंक ऑफ			12.30 बजे
	10		पंजाब पर स्थित, विक्रय विलेख सं. 210 दिनांक 04.04.2012 एवं विक्रय विलेख	बड़ौदा-13(2) 03.10.2019		2,10,45,700/-	अप.
			सं. 211 दिनांक 04.04.2012 के माध्यम से। साथ ही उपर्युक्त परिसर में	रु. 922.09 लाख हेतु + 01.10.2020 से		₹. 20,00,000/-	l I
			संस्थापित प्लांट एवं मशीनरी।	ब्याज + अन्य लागतें - वसूली, यदि कोई हो			
4	मैसर्स पेलिकैन ग्रैण्ड मोटेल्स	मैसर्स श्री अम्बे	डीएलएफ वाणिज्यिक सम्पत्ति सं. डीएसएम-359, तीसरी मंजिल, माप कार्पेट	13(2) 02.11.2019	सांकेतिक	रु. 1,51,00,000/−	13.04.2021
	प्राइवेट लिमिटेड	ट्रेडिंग कं. प्रा.लि.	एरिया 480 वर्ग फीट, डीएलएफ टॉवर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली का इक्विटेबल	रु. 25,51,55,184.38 हेत + 01.11.2010		8 8 1	11.00 बजे
	शा.का. : एनएसी मनिमाजरा	इसके निदेशक	बंधक, आरटीडी सं. 688 दिनांक 14.01.2013 के माध्यम से, स्वामित्व श्री अम्बे	से ब्याज + अन्य लागतें - वसूली, यदि कोई		रु. 15,10,000/−	पूर्वा. से 12:00
		श्री सुरेन्द्र कुमार	केमिकल ट्रेडिंग कं. प्रा.लि. इसके निदेशक श्री सुरेन्द्र कुमार के माध्यम से।	हो		रु. 1,50,000/−	बजे दोपहर
		के माध्यम से					
5	मैसर्स पेलिकैन ग्रैण्ड मोटेल्स	श्रीमती विजय	वाणिज्यिक सम्पत्ति सं. 97 की दूसरी मंजिल का इक्विटेबल बंधक, जरनैली कोठी,			₹. 2,90,00,000/-	13.04.2021
1	प्राइवेट लिमिटेड	लक्ष्मी पत्नी श्री	हाथीखाना, कुंजपुरा रोड, करनाल पर स्थित, आरटीडी सं. 1257/1 दिनांक	रु. 25,51,55,184.38 हेतु + 01.11.2010		₹. 29,00,000/-	11:15 बजे
	शा.का. : एनएसी मनिमाजरा	भगत राम	16.03.2015 के माध्यम से, स्वामिव श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री भगत राम	से ब्याज + अन्य लागतें – वसूली, यदि कोई			पूर्वा. से 12.15
				हो		₹. 2,50,000/-	ँ बजे अप.
6	मैसर्स हरियाणा ऑयल्स	मैसर्स हरियाणा	भूमि तथा भवन माप 15390 वर्ग मीटर का इक्विटेबल बंधक, प्लॉट सं. 195,	13(2) 05.07.2019	सांकेतिक	₹. 3,55,00,000/-	13.04.2021
	एण्ड सोया लिमिटेड		मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर, जिला अलवर राजस्थान में स्थित।	रु. 73,83,25,071.17 हेतु + 01.06.2019	कब्जा	रु. 35,50,000/−	11.30 बजे पूर्वा.
1	भारत र पर्स भी ही जेस्टर	योग विभिन्ने र	N 400 N N N	में हमान + भूजा लागतें - तमली गरि कोर्र	ı		- 1

17-बी. चण्डीगढ हो 12.30 बजे अप नोट : 1 से 6 तक सभी आईपी के लिए सम्पर्क व्यक्ति : पंजाब नैशनल बैंक, अधिकृत प्राधिकारी : श्री जसबीर सिंह मीलू, मुख्य प्रबन्धक, जोनल सस्त्र, चण्डीगढ़ मोबाइल : ९९१५३-७१७७ एवं खाता विवरण जिसमें ईएमडी के पश्चात आरटीडीएस एनईएफटी के माध्यम से शेष राशि जमा की जानी है : पंजाब नैशनल बैंक शा.का. : सेक्टर 17-बी, खाता सं. : 7988002200000033; आईएफएससी कोड : PUNB0798800.

से ब्याज + अन्य लागतें – वसूली, यदि कोई

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें : यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी (1) सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है। (2) यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (3) यह बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर प्रावधानित ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से क्र.सं. 1 से 3 हेतु 29.03.2021 को तथा क्र.सं. 4 से 6 हेतु 13.04.2021 को की जायेगी। (4) बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपय https://www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app तथा www.pnbindia.in देखें।

आईपी सं. 1 से 3 तक सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 15 दिवसीय विधिक सूचना आईपी सं. 4 से 6 तक सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक सूचना

कर्जदार∕जमानतियों को एतद्वारा अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि ई−नीलामी की तिथि से पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जायेगा। *नोट : आईपी का निरीक्षण 16.03.2021 से 1.04.2021 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक किया जा सकता है।

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कुंपनी अधिनयम, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

पर्ल रिटेल सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74140DL2004PTC131306) जिसका पंजीकृत कार्यालय: ए-21 / 13, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस — II

नई दिल्ली -110028 में हैं, के मामले में

....**आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता** तद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जेसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधान त्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित कर-के लिए बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर 2020 को आयोजित 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरप से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध क कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय नेदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली— 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें । ए-21 / 13. नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस−II, नई दिल्ली−110028

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर र पर्ल रिटेल सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड हस्ता / – जया सूरी (निदेशक)

एन एफ एल

यूनाइटेड ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U51909DL2013PTC260583) प्ररूप संख्या आईएनसी-26

30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए)

यूनाइटेड ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U51909DL2013PTC260583) जिसका पंजीकृत कार्यालय: 12ए / 34, **बेसमें ट डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली—11000**5 में हैं, के मामले में

....आवेषक कंपनी 🗸 र

क लिए सानपार, छा करपरा 2021 या जानाउस असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है। 12ए / 34, बेसमेंट डब्ल्यूईए, करोल बाग,

ढीआईएन: 07379492

नेशनल फर्टिलाइजुर्स लिमिटेड

स्टॉक वेरिफायर्स के तौर पर चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेट्स फर्मों को

पैनलबद्ध करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

कार्यालय, केन्द्रीय विपणन कार्यालय एवं विनिर्माण इकाइयों की इंवेन्टरी और मूर्त परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए स्टॉक वेरिफायर्स के तौर पर चार्टर्ड / कॉस्ट अकाउंटेट्स फर्मों को पैनलबद्ध करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती है। विस्तृत रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो केवल एनएफएल की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com प उपलब्ध होगा। तकनीकी मूल्यांकन के लिए विधिवत भरे हुए प्रपत्र कार्यकारी निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा) के कार्यालय एनएफएल, कॉरपोरेट कार्यालय ए-11, सैक्टर-24, नोएडा-201301(उ.प्र.) में दिनांक 07.04.2021 (सांय 5.30 बजे) तक पहुंच जाने चाहिए। कार्यकारी निदेशक (आंतरिक लेखा परीक्षा

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना ओए 875/2019

बैंक ऑफ बड़ौदा आवेदक

सेवा में

डी-1 श्री प्रशांत कुमार आशीष, पुत्र नाथुन चौधरी, बी-504, सहेट्स अपार्ट., प्लॉट नं. 30, सेक्टर 4, द्वारका, दिल्ली-110075

साथ ही: ग्राम छप्रापुर, पीओ.पी.एस. नारायणपुर, जिला भोजपुर, बिहार डी-2. मै. आम्रपाली जोडिएक डेवलपर्स प्रा.लि.

पंजीकृत कार्यालयः 307, 3रा तल, निपुण टावर, प्लॉट नं. 15, कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 31.3.2021 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थित में ही की जायेगी।

वर्तमान में जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रैंसिंग के मा से की जायेगी तथा इस उद्देश्य से:

i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको Webexapplication/software डाउनलोड करें ii) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी-I/तथा रिकवरी अधिकारी-II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in

पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी iii) किसी प्रकार की आकिस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748469 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

अधिकरण के आदेश र

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण

सहायक रजिस्ट्रार, डीआस्टी-III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. CP-62/66/ND/2020 निम्नलिखित के मामले में सनपॉवर सोलर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

(रु. 10/- प्रत्येक के 41.74.511 इक्विटी शेयरों में विभाजित) को घटाकर रु. 67,45,110/- (रु 10/- प्रत्येक के 6,74,511 इक्विटी शेयरों में विभाजित) करने की पुष्टि हेतु 3 मार्च, 2020 को एक आवेदन दाखिल किया गया था।

आवेदन के साथ प्रस्तुत क्रेडिटरों की सची के अनुसार कम्पनी में ऐसा कोई क्रेडिटर नहीं है। कम्पर्न द्वारा 19 फरवरी, 2020 को बनाई गयी क्रेडिटरों की सची कम्पनी के पंजीकत कार्यालय एसए लॉ सी-87. लोअर ग्राउण्ड फ्लोर. लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 पर निरीक्षण हेतु सोमवार से शक्रवार के बीच 11 बजे पर्वा. से 4 बजे अप. तक उपलब्ध है।

तो इसे अपने नाम एवं पते तथा अपने अधिकत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, के नाम एवं पते के विवरण सहित इसे (समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ) अधोहस्ताक्षरी के पास एसए लॉ, सी-87, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 पर इस सचना की तिथि के तीन माह के भीतर भेज सकता है।

उपर्युक्त समय–सीमा के भीतर यदि कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो क्रेडिटरों की सूची में प्रविष्टियाँ सभी कार्यवाहियों में कम्पनी की शेयर पूंजी को घटाने के लिए उपर्युक्त याचिका के तहत शुद्ध मानी

यह भी ध्यान दें कि सुनवाई की तिथि शुक्रवार, 4 जून, 2021 को निर्धारित की गयी है जिस पर अधिकरण आवेदन पर सुनवाई करेगा। यदि कोई क्रेडिटर सुनवाई में उपस्थित होना चाहता है तो अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, सहित निवेदन भेज दे।

तिथि : 04.03.2021

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ओए 771/2020 बैंक ऑफ बड़ौटा श्री सीन मैथ्यूज एवं अन्य आवेदक सेवा में

श्री नरेश पाल (गारन्टर)

(पतिवादी सं. 03)

2. मै. जे.एस.एम. डेवकॉन्स प्रा.लि. (बिल्डर/डेवलपर)

साथ ही: एच-198, 2रा तल, सेक्टर-63, नोएडा-201301

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 24,97,681/- (रु. चौबीस लाख सत्तानवे हजार छः सौ इक्यासी मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 12.04.2021 **को** 10.30 **पूर्वा**. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। (अधिक विवरणों के लिये डीआरटी की वेबसाईट www.etribunal.gov.in, फोन नम्बर 011-23748473 देखें।) ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की

से की जायेगी तथा इस उद्देश्य से:

i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको Webexapplication/software डाउनलोड करें;

 ii) सनवाई की अगली तिथि अर्थात रजिस्टार/रिकवरी अधिकारी– $\mathrm{I/a}$ था रिकवरी अधिकारी– II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी। iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748473 पर संबंधित अधिकारी रं

अधिकरण के आदेश रजिस्ट्रार के लिए





स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 05.03.2021

इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) यू जी. फ्लोर, ईस्ट टॉक्र, एन.बी.सी.सी. प्लेस, गीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विदार, लोची पेठ, नई दिल्ली-110003 फोन नं: 24368766-68, फॅक्स: 24368770 वेबसाइट: www.irfc.nic.in सीआईएन-U65910DL1986GO1026363

सूचना

एतदद्वारा सभी शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों, ग्राहकों, व्यवसाय सहायकों, बैंकों, वित्तीर संस्थानों, एरेंजर्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सभी स्टेकहोल्डरों, सभी संबंधित व्यक्तियों एवं सदस्यों और आम जनता को स्चित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने 4 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को 8 मार्च, 2021 से यूजी फ्लोर, ईस्ट टॉवर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से शहर की स्थानीय सीमा के भीतर नये परिसर कमरा नं 1316—1349, तीसरा तल, होटल दि अशोक, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, 50—बी, चाणक्यपुरी नई दिल्ली—110021 में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

कृते इंडियन रेलवे फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड विजय बाबुलाल शिरोडे कंपनी सचिव

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मैसर्स गौरसन्स रियलटैक प्रा० लि० के मास्टर प्लान कॉमर्शियल भूखंड MPC-01 पॉकेट -03, सैक्टर-19 पर दिनांक -14.10.2020 को पुनरीक्षित भवन मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की गई है। तदोपरान्त बिल्डर द्वारा पूर्व में स्वीकृति पुनरीक्षित भवन मानचित्र में डिजाईन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी Consent दी गई है या नहीं के संबंध में अपार्टमेंट ओनर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधन Declaration एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 बजे से सायं 6:30 बजे के मध्य नियोजन विभाग के Displayed नक्शे में किया जा सकता है। मानचित्रों में उ० प्र० अपार्टमेंट एक्ट - 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधनों की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेंट स्वामियों / संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अंदर आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। अतः उपरोक्त निहतार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवेदन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नंबर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक पी - 2, सैक्टर—ओमेगा - 1, ग्रेटर नोएडा सिटी 201308 जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित उप महाप्रबंधक के (वास्तुविद / नियोजन) विभाग में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में आवंटी अपनी आपत्ति जमा करा सकते हैं।

> उप महाप्रबंधक (वास्तुविद /नियोजन) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के प्रावधानों के साथ पठित वित्ती आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 व

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, मैसर्स सैवफैप डेवलपर्स तथा इसके जमानतियों श्री धनेश कुमार गोयल, श्री विनी गोयल, श्रीमती ओमवती गोयल, मैसर्स गाजियाबाद होल्डिंग प्रा.लि., मैसर्स रूपाली एविएशन लिमिटेड, मैसर्स फै फिनइनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड से 31.08.2020 तक बकाया रु. 34,63,61,481.73 (रुपये चौंतीस करोड़ तिरेस नाख इकसठ हजार चार सौ इक्यासी एवं तिहत्तर पैसे मात्र) एवं भावी ब्याज तथा व्ययों की वसूली के लिए उसकी बिब्र जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 08.04.2021 को की जायेगी।

तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

क्र. सं.	कर्जदार/जमानती/ बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति के कब्जे का विवरण तथा स्थिति	30.8.2020 तक दायित्व एवं केनरा बैंक को देय प्रयोज्य ब्याज तथा अन्य व्यय	a. आरक्षित मूल्य (रु.) b. ईएमडी (रु.)	नीलामी तिथि एवं (प्रत्येक 5 मि अवधि के अ विस्तार सा ईएमडी उ करने की 3 तिथि एवं
1. 2. 3.	पुत्र श्री रामअवतार गोवल निवासी सी-88, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.– 201001 बिनीत गोयल पुत्र श्री धनेश कुमार गोयल निवासी सी-88, लोहिया नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 श्रीमती ओवती गोयल,	अथवा 400 वर्ग मीटर की भूमि का सम्मुणं भाग, खसरा नं, 2020, एनएन-24, निकट टोल टैक्स थेरियर, ग्राम डाससा, तहसील एवं निक्त गांतिकायार, इन्सार गोंवला पत्नी श्री धनेश कुमार गोंवल। पत्नी केरियर भी भूमि उपार गोंवल। पत्नी केरियर भी भूमि उपार गोंवल। पत्नी केरियर भी भूमि उपार गोंवल। पत्नी केरियर भी भूमि तहसील एवं निक्त गांतिकायार, उत्तर प्रदेश पर, स्वामित्व श्रीमती अंगराती गोंवल पत्नी श्री मती अंगराती गोंवल पत्नी श्री मती	रः, 34,63,61,481,73 (रुपये पीसीय करोड़ मिराटन लाख इक्ततः इक्ता चार सी इक्यासी एयं तिहचर पैसे मात्र)	आरबित मृत्य रु. 4,99,50,000/- इंएसबी (इ.) 49,95,000/-	08.04.20 को 11:30 पूर्वा, से 1 बजे अप. 07.04.20 को 5.00 अप. त
4.	प्रा.लि. (कॉर्पोरेट जमानती) पंजीकृत कार्यालय : डिस्को कम्पाउण्ड, जी.टी. रोड, गाजियाबाद, उ.प्र201001	दक्षिण : श्री प्रेम कुमार गोगी की कृषि भूमि। मकान नं. सी-88, ब्लॉक-सी,		आरबित मृल्य रु. 2,25,00,000/- ईएमडी (रु.) 22,50,000/-	
6.	पंजावृत कार्याराय 'दुकान' तं. 10, विविद्धने 'तं. 324 बीआर कॉम्पालेक्स, मयुर विहार, फेज-1, दिल्ली मैससं फेक्स फिक्सजेस्ट (इंग्रिड्स) लिमिटेड (कंग्रिसेंट बमानती) पंजीकृत कार्यालाव : कक्ष सं. 206, 1/42, लिला पार्क, लक्ष्मी नगर-110092	89, यशिणः मकान नै. 87. थर्गाटः माथ 0.5 हेश्येदयः ख्वास्त व. इ. 112 थर्षेट, श्राण-द्वास्ता, एनएच-24, गावित्रावाद, उत्तर प्रदेश की भूमि का समूर्ण गागा सीमार्थः पूर्वः अन्तर-द विकार कालीजी, परिचम : ज्यू महेन्द्र एकतिये, उत्तर : 30,00 भरीट मंद्रीत सहस्र मन्द्र परिचार, उद्देश्य । मधुयन बापू धाम अन्य सम्पर्धि।		आर्यश्वत मृत्य रु. 2,96,10,000/- इंएमखी (रु.) 29,61,000/-	

अन्य नियम एवं शर्ते क) यह समानि होंक के भौतिक कहने में है।

भार, यदि कोई हो, सहित ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां हैं आधार'' पर

ग) नीलामी/ बिक्री वेबसाईट www.indianbankeauctions.com अथवा www.ccsl.co.in के माध्यम से ''ऑनलाः इलेक्ट्रॉनिक बोली'' होगी। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व विस्तृत शर्तों के लि सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जाएगा तथा भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव क

गण्डा वर्षा स्वता है। गम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी, एआरएम शाखा–3, 04 नेहरू हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग शाखा, नई दिल्ली की पू अनुमति के साथ किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

चित्रपणों के लिए कृपया सेवा प्रदाता श्री प्रताप कंजीलाल/श्री डी डी पद्यार, सम्पर्क नं, 9832952602/8898418010, लैंड लाइ-नं, 080-23469665, ईमेल: ccsleauction@gmail.com या ccsl@ccsl.co.in से ईएमडी के पुगतान के दिन संपर्क करें ईएमडी राशि के पुगतान की विधि को तत्काल बोलीदाता (यदि वैध डिजीटल हस्ताक्षर नहीं हो) डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए उक्त सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

(1) ईएमडी राशि के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर, यदि आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा भुगतान किया गया हो, यूटीआर नं. के साथ उसर्क

्रावती रसीद। (2) पैन कार्ड, आईडी पुफ तथा आवास के प्रमाण की फोटो कॉपी। लेकिन, सफल बोलीदाता को शेष 25% बोली राशि के धुगतान वे

समय में बैंक के पास इसके मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा, 3) बोलीदाता का नाम, संपर्क सं., पता, ईमेल आईडी,

(२) नीलामी उक्त आरक्षित मृल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता रु. 1,00,000.00 के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। जो बोली दाता 'ऑनलाइन' नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मुल्य से कम नहीं) जमा करते हैं उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा जो प्रतिभूत लेनदार की पुष्टि का विषय होगा।

(ठ) बिक्री की पुष्टि सफल बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी जो प्रतिभृति, क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी। (ङ) सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में उनकी घोषणा के तत्काल बाद 25% विक्री मुख्य (पूर्व-प्रदत्त इंएमडी सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष राशि का भुगतान प्रतिभूत क्रेडीटर के पास 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अविध में भुगतान नहीं करते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि बिना कारण बताए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जबत कर

ली जाएगी तथा संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी।

(त) प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलीमी को स्थगित/ रह करने अथवा नियमीं एवं शर्ती में परिवर्तन कर

बिल आदि) नहीं है क्योंकि उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोइ हो, इन देयताओं का वहन करने के लिये क्रेत उत्तरदायी होंगे।

(थ) बोलीदाता को टाइटल, विस्तार, क्षेत्रफल, बकाये आदि के संबंध में ड्यू डिलिजेन्स तथा सम्पत्ति का भौतिक निरीक्षण करना होग बोली जमा करने के बाद बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं होगा। (न) अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: श्री राजेश कुमार सिन्हा, प्राधिकृत अधिकारी (मुख्य प्रबंधक), केनरा बैंक, एआरएम शाखा 3 (फोन नं. 99683090661): ईमेल आईडी: cb19066@canarabank.com अथवा सेवा प्रदाता मैं, केन बैंक कम्प्यत

23469665, ईमेलः cesleauction@gmail.com या ccsl@ccsl.co.in प) सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ की जा रही है। प्राधिकृ अधिकारी/प्रतिभृत क्रेडीटर किसी भी रूप में किसी थर्ड पार्टी के दावे/अधिकारों/देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। क्रेता के अपनी संतुष्टि के तरिकार में राज्य निर्माण करिया कर वाद के पान्य आपकार प्राथमात्र करिया उपराची नहीं हो। अगा क्र अपनी संतुष्टि के विषे समित्रि के सभी पहलुओं पर इन् इंडिलिंग्स कर तेना विषिय बोलीदाल के सलाह दी वाली है कि ये संवीधा सम्पत्ति के टाईटल तथा अचल प्रतिभृत परिसम्पत्ति के आकार क्षेत्रफल सहित सम्पत्ति से संवीधत अन्य विवरण तथा अपनी बोली नमा करने से पूर्व अपनी संतुष्टि के लिये संबंधित प्राधिकरणों से अन्य बकाये/ देयताओं/ अधिभारों की जांच कर स्वयं को संतु

फिर से बिक्री पर रखने के लिये सम्प्रभु अधिकार रखता है। सैवफैब डेवलपर्स प्रा.लि. एवं अन्य बनाम केनरा बैंक शीर्षक से एक एसए सं. 2020 का 139 माननीय डीआरटी III

महत्त्वपूर्ण निर्देश/चेतावनीः

अंतिम मिनट तथा सैकण्ड में अपने स्वयं के हित में बोलीदाता बोली करने से बचें। न तो केनरा बैंक न ही सेवा प्रदाता किसी चुक/ विफलता (इंटरनेट फैल्योर, पावर फैल्योर आदि के लिए विक्रेता की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे।इस प्रकार की आकरिमव

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

दिद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी रेन्द्रीय स्रकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 **क्** धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधाने क्षेत्र दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 01 फरवरी 2021 को आयोजित

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवून, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नर्ड् देल्ली— 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके

ाई दिल्ली—110**0**05 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से यूनाइटेड ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड बालिकशन गोयल

दिनांक : 05.03.2021 स्थान : नई दिल्ली (भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: L74899DL1974G01007417 स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर−॥।, ७, इंस्टीच्युशनल एरिया, लोघी रोड, नई दिल्ली−03

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एनएफएल) अपने पंजीकृत कार्यालय, कॉरपोरेव

एन.एफ.एल.: किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव

साथ ही: कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा

नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली

याचिकाकत सुचना का प्रकाशन सूचनार्थ है कि अधिकरण, नई दिल्ली के पास उपर्युक्त कम्पनी की शेयर पूंजी पुर. 4,17,45,110/

कम्पनी का कोई क्रेडिटर यदि आवेदन या क्रेडिटरों की सुची में विवरणों पर कोई आपत्ति रखता है

एच. नं. 63, मसूद पीडब्ल्यू डेयरी, गली नं. 3, वसंत कुंज (प्रतिवादी सं. 04) 715, नौरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस. नई दिल्ली-110001

सनवाई तथा निर्णय आपकी अनपस्थिति में ही की जायेगी। वर्तमान में जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यर

सम्पर्क कर सकते हैं। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 02 मार्च, 2021 को दी गई।

> विद्वान रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, नई दिल्ली, फोन नं.: 011-23748473 ईमेलः drt1delhi-dfs@nic.in से सम्पर्क करें।

अधिकृत प्रतिनिधि

प्रतिवादीगण

(अ) आरक्षित मुख्य के 10% को इंप्यूची का पुतानत डिलार्ड ड्रास्ट (डीडी) जो कि प्राधिकृत अधिकारी, केनता वैंक, एआरएम शाखा-3, 04 नेहरू हाउत, बहादुर शाह जफर मार्ग शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में देय हो के द्वारा या केनता वैंक, एआरएम शाखा-3, चाल् खाता सं. 9026302000049, आईएफएससी कोड: SYNB0009017 को खाता में क्रेडिट के लिये आरटीजीएस/ नेफ्ट/ निर्धि अंतरण हाता 07,04.2021 के 5.00 बंजे अप. तक किया जोनेया। (छ) इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजीटल हस्ताब्धर प्रमाण पत्र तथा ईं-मेल पता होना चाहिए। डिजीटल हस्ताब्धर प्रमाणपत्र से संबंधित

त्र) इंप्सची के भूगतान के बाद इच्छुक बोलीदाता को केनरा बैंक, एआरएम शाखा-3 के पास हाथों-हाथ या इंसेर (cb19066@canarabank.com) द्वारा 07.04.2021 के 5.00 बने अप. से 'पूर्व अधोलिखत दस्तावेजी/ विवरणों को जम

(3) बालाधा का नान, त्यस्त्र रहा, राज, इनल आहड़ा, (4) इंप्युत्त के स्वात का विवरण। (इ) इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल www.indianbankeauctions.com अथवा ccsl.co.in पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा नि:गुल्क युवर आईडी तथा पास्चर्ड प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स कैन बैंक कम्प्यूटर सर्विस लि. तथा गानुष्टच्य पूचर आइंडा तथा पारचंड अपने करना आहं तिया समावित्र चाराताता चया अवात गर्चस्य के किन्यूटर सम्पर्क व्यक्ति श्री प्रताप केतीलत्, श्री डी डी पखारे, सम्पर्क नं, 98329526028898418010, लैंड लाहन नं, 080-2 ईमेलः ecsleauction@gmail.com या ecsl@cesl.co.in से ई-नीलामी पर औन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सस् (अ) असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी उन्हें वापस लीटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(७) लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, स्टाम्म ड्यूटी तथा पंजीकरण चार्जेज आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता को ही करना होगा। (ण) जहाँ अंतरित की जाने वाली सम्मत्ति का बिक्री मूल्य रु. 50 लाख तथा उससे अधिक हो, सफल बोलीदाता को अलग से बिक् मूल्य के 1% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस प्रमाणपत्र की मूल रसीद बैंक के पास जमा करना होगा।

कर लें। बाद में इस संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी,प्रतिभृत केडीटर के विरुद्ध किसी भी दावे के लिये क्रेता अधिकृत नहीं होंगे। फ) किसी भी राशि के भुगतान में चूक करने अथवा निर्धारित समय-सीमा में क्रेता/ बोलीदाता की ओर से चूक के कारण विक्री पूरा नहीं होने की स्थित में बैंक क्रेता/ बोलीदाता द्वारा उस समय तक जमा की गई सभी राशि जब्त करने तथा प्रतिभृत परिसम्पचि को

ू परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वांछित बैक अप विद्युत आपूर्ति जैसी सभी आवश्यक व्यवस्था विकल्प का प्रावधान कर लें ताकि वे इस प्रकार की परिस्थित से निपट सकें तथा नीलामी में सफलतापर्वक भाग ले सकें।